

***प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.11.2022 जनपद देवरिया**

आज दिनांक 09.11.2022 को जनपद देवरिया पुलिस लाइन स्थित प्रेक्षागृह में वर्ष 2015 के पश्चात भर्ती हुए उ0नि0/आरक्षी/महिला आरक्षीगणों की वीआईपी/वीवीआईपी एवं अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटियों के अतिरिक्त पुलिस कार्यप्रणाली के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा क्षेत्राधिकारी श्री अंशुमान श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री विनय कुमार यादव की उपस्थिति में कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुये कार्यशाला के प्रारम्भिक बिन्दू बीट प्रणाली, सामान्य अनुशासन, ड्रेस मैनुअल, टर्न आउट, दंगा नियन्त्रण योजना, वीआईपी/वीवीआईपी ड्यूटी व सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस संगठन, पुलिस रजिस्टर का विवरण, मानवाधिकार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी एवं सोशल मीडिया से सम्बन्धित जानकारी दी गयी उक्त कार्यशाला दिनांक 28.11.2022 तक विभिन्न कार्यशाला का आयोजित किया जायेगा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.11.2022 जनपद देवरिया।

थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 25000 रू0 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना तरकुलवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-194/2022 धारा- 420,467,468,471 भादवि व 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम में जनपद देवरिया से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी कुसम्हा थाना मदनपुर जनपद देवरिया, जो जनपद देवरिया से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त है। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 रामसहाय यादव तरकुलवा द्वारा की जा रही है। जो दिनांक 17.07.2022 से फरार चल रहा था। जिसे कल दिनांक 09.11.2022 को व0उ0नि0 रामसहाय यादव व आरक्षी रामआशीष यादव द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कोन्हवलिया मोड़ के पास से अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ दीपू सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जघन्य अपराध सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. दीपक सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी कुसम्हा थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. 194/2022 धारा- 420,467,468,471 भादवि व 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. व0उ0नि0 रामसहाय यादव थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

02. आरक्षी रामआशीष यादव थाना तरकुलवा जनपद देवरिया